



'असोधेम बेरट प्रोमिसिंग  
फूड इंडस्ट्री एवोर्ड्स 2015'



# औषध सामाचार



मिर्च • हल्दी • धनिया • धनिया-जीरा • कुमठी कश्मीरी मिर्च • हींग



## क्या आप जानते हैं? रसोई को स्वादिष्ट बनाते मसाले स्वास्थ्य के लिये कितने गुणकारी हैं?

व्यंजन में मसालों का ना होना, जीवन में खुशियाँ ना होने के बराबर हैं। रोजाना रसोई में पड़ते यह थोड़े से मसाले एक-साथ मिल कर, खाने का रंग और महक कुछ इस तरह उभारते हैं कि जब खाना पक रहा हो तभी से भूख लगनी शुरू हो जाती है। यह है मसालों का जादू, जो भूख लगाने से ले कर स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। सच, आज तक मसालेदार व्यंजन खाते वक्त कभी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि यह मसाले स्वास्थ्य के लिए कितने गुणकारी हैं। हमारे शास्त्रों में यह बात कई वर्षों पहले कही गई है। जिसमें विविध मसालों को औषधि के तौर पर उपयोग में ले कर तंदुरुस्त रहने का उल्लेख किया गया है। जब वैज्ञानिक युग में रसायनिक दवाएँ आविष्कार नहीं हुई थीं तब यह मसाले वैदों के लिए दवाईयों की कमी पूरी करते थे। वर्षों बाद वैज्ञानिकों द्वारा हुए कई संशोधनों में हमारे ऋषिमुनी और पूर्वजों की कही बात को स्वीकारा कि, भारतीय मसालों में सिर्फ स्वाद बढ़ाने की ही नहीं, स्वास्थ्य सुधारने की भी शक्ति छिपी है। विविध मसालों में रहते एन्टि-

ऑक्सिडन्ट्स (हानिकारक तत्वों को नियंत्रित रखने की क्षमता) और एन्टि-माइक्रोबायल गुण हमारे लिए बहुत लाभदायी हैं। यह तत्व हमारी रोग प्रतिकारकता बढ़ाते हैं। हमारी पाचनक्रिया को तेज़ करते इन मसालों के बिना हमारा स्वास्थ्य और जीवन दोनों रसहीन बन जाते हैं।

### स्वास्थ्य में थोड़ा स्वाद

#### रसोईघर में रहते लाभकारी मसाले

मसाले स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए हम जाने हमारे रसोईघर में रहनेवाले इन मसालों की क्या खुबियाँ हैं और कैसे यह मसाले हमारी तंदुरुस्ती को संभालते हैं।

### मस्त मस्त मिर्च

लाल मिर्च चटाकेदार व्यंजन के लिए ज़रूरी होती है। मिर्च में केप्सीसीन नामक तत्व होता है। केप्सीसीन में एन्टि-ऑक्सिडन्ट्स की खुबियों के साथ एन्टि-इन्फ्लेमेटरी (सूजन को रोकने की क्षमता) भी होती है। इस वजह से मिर्च से हमें कई लाभ होते हैं।

-उसमें विटामिन A और विटामिन E होते हैं जो त्वचा, हड्डियाँ, रक्तवाहक नसों और जोड़ों के दर्द के लिए हितकारी हैं। यह विटामिन्स हमारे शरीर में हानिकारक प्री रेडिकल्स को दूर रखने में सहायक हैं।

-मिर्च में रहते तत्व खून में मिलकर उसे पतला बनाते हैं और उसका वहन सरल बनाते हैं, जिससे हृदय को कम श्रम पड़ता है।

-मिर्च में लोहतत्व भी होता है जो नए रक्त के सर्जन में बहुत ज़रूरी है।

-मिर्च में काफी मात्रा में भिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, मेग्नीशियम, आयरन जो खून के दबाव को नियंत्रण में रख कर हृदय स्वस्थ रखते हैं।

-मिर्च के बारे में एक गलत मान्यता है कि उससे पेट में अल्सर (छालें) हो जाते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि मिर्च में से जो पाचक रसों का स्त्राव निकलता है वह पेट के हानिकारक बैक्टेरिया का नाश करके कोशिकाओं को सक्रिय कर पेट की क्रिया तेज़ बनाते हैं। जिससे पाचनक्रिया सुधरने के साथ रोग प्रतिकारकता भी बढ़ती है।



**कम तीखी,  
ज्यादा लाल.  
ऐसिडिटी से रखे दूर.**

**वसंत**

**कुमठी  
कश्मीरी  
मिर्च पाउडर**



## कुमठी कश्मीरी मिर्च

भारत में उपलब्ध मिर्च की अनेक प्रजाति में कुमठी कश्मीरी मिर्च सर्वोत्तम प्रजाति है। उसकी खास बात उसका लाल रंग और सप्रमाण तीखापन है। पस्तुत है, केप्सीसीन और विटामीनयुक्त वसंत केप्साविटा कुमठी कश्मीरी मिर्च पाउडर। जो उविटामीन A, C से भरपूर और एसका केप्सीसीन घटक जो मात्र मिर्च में पाया जाता है जो एसिडिटी को दूर रखें।

इस मिर्च को रोजमर्रा की रसोई में और खासकर अचार में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सालभर लाल चटाकेदार अचार हमें मिले। कुमठी कश्मीरी मिर्च सामान्य लाल मिर्च जितना ही लाभदायी है और घर में रखना भी ज़रूरी है।

कुमठी कश्मीरी मिर्च एसिडिटी के रोग को दूर रखने में बहुत असरदार है।

**कुमठी कश्मीरी मिर्च एसिडिटी  
के रोग को दूर रखने में  
बहुत असरदार है।**

## हितकारी हल्दी

हमारी संस्कृति में शुभ मानी जाती है और पूजा में भी इस्तेमाल होती हल्दी सही मायनों में पूजनीय है। हल्दी के अनगिनत गुणों के बारे में जाने।

- हल्दी को मलाई में मिला कर चहरे पर लगाने से चमक आती है और रुखापन दूर होता है।
- हल्दी को कच्चे दूध में मिला कर लगाने से त्वचा मुलायम बनती है।
- गरम दूध में हल्दी घोल कर पीने से खून साफ रहता है और अंदरूनी चोट में राहत मिलती है।
- घाव पर हल्दी लगाने से घाव जल्दी भर जाता है।
- हल्दी को यदि रोजाना शहद के साथ लिया जाए तो डायाबिटीस होने की संभावना कम रहती है।
- आँखों के दर्द में हल्दीवाले पानी में भिगोया हुआ कपड़ा आँखों पर बांधने से काफी राहत मिलती है।

**हल्दी को यदि रोज शहद के साथ लिया जाए तो डायाबिटीस होने की संभावना कम रहती है।**

## धूरंधर धनिया

**धनिया आंतो में रहते  
गेस को दूर करता है।**

- धनिया पावडर कोथमीर के पौधे से बनता है। बहुत सारे व्यंजनों में अपना अनोखा स्वाद और सुंगध फैलाता धनिया पावडर हमारी तंदुरुस्ती के लिए बेहतरीन है।
- धनिया में विटामिन A,B,B<sup>2</sup>,C और आयरन होते हैं, जो हमारी विविध इन्द्रियों को सक्षम बनाते हैं।
- पाचनक्रिया सक्रिय बनाकर जठर के बेकटेरिया से रक्षण करता है।
- शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है।
- आंतो में रहते गेस को दूर करता है।
- ब्लड सुगर और हानियुक्त कोलेस्ट्रोल को काबू करता है।
- HDL यानि की अच्छे कोलेस्ट्रोल की मात्रा इसमें अधिक है।
- मेग्नीशियम जैसे उपयोगी घटक का कुदरती स्रोत है।

## जबरदस्त जीरा

जीरा, भारतीय मसालों में अग्रिम है। जीरा पावडर मसालों के मिश्रण में डाला जाता है। और व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने का एक ज़रूरी हिस्सा है। आईए, पता करते हैं स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए जीरा कितना गुणकारी है।

**जीरे की वजह से त्वचा  
के कुछ रोग जैसे कि  
एकजीमा को काबू में  
रखा जा सकता है।**

- पारंपरिक तौर पर जीरा पाचन के लिए श्रेष्ठतम तत्व है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह बात साबित की गई है कि जीरा पावडर में पाचनक्रिया सक्षम बनाने के सारे गुण हैं।



- जीरे में अच्छी मात्रा में आयरन, विटामिन E और C होने के कारण एनिमिया (खून की कमी)नियंत्रण में रहता है तथा रोग प्रतिकारकता बढ़ती है।

- जीरे की वजह से त्वचा के कुछ रोग जैसे कि एकजीमा को काबू में रखा जा सकता है।

- जीरे में रहते एन्टिसेप्टिक तत्व साधारण जुकाम में राहत देते हैं।

- जीरे के कुछ घटक बाल और नाखुन मजबूत करते हैं।

## चमत्कारी चुटकी हींग

**फेफड़ों के रोग जैसे कि  
ब्रोन्काइन्टिस में ज़रा सी हींग को शहद  
के साथ लेने से लाभ होता है।**

रसोई में छोंक का महत्व तो हर कुशल गृहिणी को पता है और अच्छे छोंक की पहचान है चुटकीभर हींग। उसकी एक खास तेज महक और स्वाद, छोंक में बहुत जरूरी है। यही हींग स्वास्थ्य के लिए कितनी गुणकारी है वो भी जान लें।

- हींग खास कर पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए उपयोगी है। पाचनक्रिया की समस्या दूर कर उसे सुधारने में हींग श्रेष्ठ है।

- पेट में गेस की समस्या का भी निवारण करती है।

- कब्ज को दूर करने में भी सहायक है।

- फेफड़ों के रोग जैसे कि ब्रोन्काइन्टिस में ज़रा सी हींग को शहद के साथ लेने से लाभ होता है।

- बदहजमी की वजह से पेट दर्द को ठीक करने में भी हींग लाभदायी है।

**बदहजमी की वजह से पेट  
दर्द को ठीक करने में भी  
हींग लाभदायी है।**



**वसंत**

**रेडी मिक्स  
मसाला**



# स्वास्थ्य के दाव पर सस्ता? कितना सही है?

इस महंगाई के दौर में हर गृहिणी बचत करने का सोचती है. परंतु साथ ही उसकी और परिवारजनों की तंदुरुस्ती की देखभाल भी उसके लिए महत्वपूर्ण है. जहाँ सवाल स्वास्थ्य का और सस्ते का हो वहाँ उसकी पसंद स्वास्थ्य की तरफ ही होगी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप तक कुछ सच्चाई पहुँचा रहे हैं.

## खुले मसालों की खुली हकीकत



रास्तों पर रखे हुए मिर्च के ढेर आपने देखे होंगे. वही मिर्च खरीदते वक्त जरा उसकी आस-पास की स्थिति पर भी नजर डालें. यह मिर्च दिनभर खुले रोड पर पड़ी रहती है. ट्राफिक, प्रदुषण, धुल इत्यादि के बीच रहती यह मिर्च कितनी इस्तेमाल के लायक होगी, उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं. साबूत मिर्च पर जमे उन हानिकारक तत्वों को खुद साफ करना नामूमकीन है, इसलिए मसाले के साथ स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते कीटाणुं भी हमारी रसोई में रहते हैं.

## हाइजिनिक तरीके से पैक होते वसंत मसाले

खुले मसालों से पैक किये मसाले १००% अधिक शुद्ध होते हैं. क्योंकि उसे सबसे बेहतरीन जगहों से एकत्र करके, अत्याधुनिक प्लान्ट में मशीनों द्वारा साफ किया जाता है. जिससे उनकी महक और रंग हमेशा एक - से रहते हैं. मसालों में छिपे अनगिनत गुण तभी असरकारक होते हैं. जब मसालों को सफाई से पैक किया गया हो, वैज्ञानिक तरीकों से तैयार हुए, लेबोरेटरी में परिषिक्त - ऐमार्क युक्त कवॉलिटी मसाले, जो हाइजिनिक फोइल पैक में होते हैं, वह सर्वोत्तम होते हैं.

एक फेमिली में मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल ४-६ किलो होता है, उस हिसाब से खुले मसालों की बराबरी ब्रान्डेड मसालों का वार्षिक ₹ १०० से ₹ २०० जितना ज्यादा खर्च क्या आपके फेमिली के स्वास्थ्य के हित से ज्यादा महत्व रखता है ?

आप ही निर्णय लें की सस्ते मसाले लेंगे या फिर ग्यारंटीयुक्त पैक हुए शुद्ध मसाले? थोड़ा ज्यादा खर्च उठा कर लेंगे! तो स्वास्थ्य की भी देखभाल होगी और मसालों का असली स्वाद, सुगंध और रंग भी बरकरार रहेंगे.



आधुनिक मशीनों में साफ होते मसाले



विशेषज्ञों द्वारा शुद्धता की जांच



लेबोरेटरी में परिषिक्त के बाद पैक होते मसाले



**आप ही तय करें सस्ते मसालों से स्वास्थ्य का नुकसान करेंगे या पैक किए हुए मसालों के गुणों का लाभ लेंगे ?**



वसंत मसाला को  
ASSOCHAM द्वारा  
“बेस्ट हाइजीन सोल्युशन ऑफ ध यर”  
पुरस्कार अनायत

इस शुभ अवसर पर साध्वी निरंजना ज्योति, माननीय राज्यमंत्री खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग, भारत सरकार भी उपस्थित रहे.

यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गर्व की बात है.

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वसंत मसाला कंपनी विकास एवं प्रगति के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

वसंत की शुद्धता पर आपके भरोसे की वजह से ही हमे यह एवोर्ड प्राप्त हुआ है.

वसंत मसाला परिवार आप सब का दिल से हार्दिक-अभिवादन करता है.



Mkt. Office: 429/ Patel Avenue, 4th Floor, Near Gurudwara, Opp. Vishal Mega Mart. Thaltej x road, S. G. Highway, Ahmedabad. Ph.: +91-79-26850140-41.  
E-mail: contact@vasantmasala.com Visit us at: www.vasantmasala.com

**स्प्रिंक्लर पैक हींग के  
स्वाद-महक संजोए.**

- सप्रमाण इर्स्तेमाल ● बेस्ट क्वालिटी
- स्वाद-महक संजोए ● इर्स्तेमाल में आसान